

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

85
9/5/72

सं० 70] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 1972/माघ 13, 1893
No. 70] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 1972/MAGHA 13, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाी है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February 1972

S.O. 91(E).—In pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, and in supersession of its notification No. 56/71-II (S.O. 479), dated the 25th January, 1971 published in the extraordinary issue of the Gazette of India, Part II Section 3(ii), dated the 27th January, 1971, the Election Commission of India hereby specifies:—

- (a) the National parties and the symbols respectively reserved for them in Table 1;
- (b) the State parties, the State or States in which they are State parties and the symbols respectively reserved for them in such State or States in Table 2; and
- (c) the free symbols for each State in Table 3.

TARIF I

National Parties	Reserved Symbols
1. Indian National Congress	Calf and Cow
2. Indian National Congress (Organisation)	Charkha being plied by a woman
3. Swatantra Party	Star
4. Bharatiya Jana Sangh	Lamp
5. Communist Party of India	Ears of Corn and Sickle
6. Socialist Party	Tree
7. Communist Party of India (Marxist)	Hammer, Sickle and Star

TABLE II

Name of State	Name of the State Party	Symbol allotted
Haryana	1. Vishal Haryana 2. Akhil Bharatiya Arya Sabha	Rising Sun Swastik within a circle
Jammu and Kashmir	Jammu and Kashmir National Conference	Plough
Kerala	1. Muslim League 2. Kerala Congress 3. Revolutionary Socialist Party	Ladder Horse Spade and stoker
Maharashtra	1. Republican Party of India 2. Peasants and workers Party	Elephant Cart
Manipur	Manipur People's Party	Bicycle
Meghalaya	All Party Hill Leader's Conference	Flower
Mysore	Janata Paksha	Scales
Nagaland	1. Nagaland Nationalist Organisation 2. United Front of Nagaland	Mithun Cock
Orissa	1. Jana Congress 2. Utkal Congress	Scales Water wheel and Plough
Punjab	1. Shiromani Akali Dal 2. Shiromani Akali Dal (Gurnam Singh)	Scales Bow and Arrow
Tamil Nadu	Dravida Munnetra Kazhagam	Rising Sun
Tripura	Tripura Congress	Plough
Uttar Pradesh	Bharatiya Kranti Dal	Haldhar
West Bengal	1. Forward Bloc 2. Revolutionary Socialist Party	Lion Spade and stoker
Goa, Daman and Diu	1. Maharashtrawadi Gomantak 2. United Goans (Sequeira Group)	Lion Hand
Pondicherry	1. People's Front 2. Dravida Munnetra Kazhagam	Elephant Rising Sun

TABLE III

Name of State	Free symbols
1. Andhra Pradesh	(1) Bicycle, (2) Scales, (3) Two Leaves, (4) Boat, (5) Camel, (6) Pot, (7) Railway Engine, (8) Haldhar, (9) Swastik within a circle, (10) Sparrow, (11) Tractor (12) Hand, (13) Flaming Torch, (14) Tiger and (15) Elephant.
2. Assam	(1) Bicycle, (2) Boat, (3) Lion, (4) Scales, (5) Spade, (6) Two Leaves, (7) Sparrow, (8) Pot, (9) Railway Engine, (10) Camel and (11) Spade and Stoker.
3. Bihar	(1) Lion, (2) Rising Sun, (3) Scales, (4) Two Leaves, (5) Haldhar, (6) Ladder, (7) Cart, (8) Boat, (9) A woman carrying basket on her head, (10) Horse and Rider, (11) Swastik within a circle, (12) Fish, (13) Pot, (14) Bow and Arrow, (15) Bicycle, (16) Railway Engine, (17) Cultivator cutting crop, (18) Spade and Stoker, (19) Drum, (20) Elephant and (21) Soldier with a gun.
4. Gujarat	(1) Bicycle, (2) Lion, (3) Rising Sun, (4) Scales, (5) Two Leaves, (6) Horse, (7) Pot, (8) Sparrow, (9) Railway Engine, (10) Boat and (11) Haldhar.
5. Haryana	(1) Bicycle, (2) Hand, (3) Horse, (4) Scales, (5) Two Leaves, (6) Plough, (7) Lion, (8) Boat, (9) Tractor, (10) Haldhar and (11) Elephant.

Name of State	Free symbols
6. Himachal Pradesh	(1) Bicycle, (2) Lion, (3) Rising Sun, (4) Scales, (5) Two Leaves, (6) Railway Engine, (7) Sparrow, (8) Boat and (9) Farmer winnowing grain.
7. Jammu & Kashmir	(1) Bicycle, (2) Boat, (3) Rising Sun, (4) Scales, (5) Hand (6) Two Leaves, (7) Spade, (8) Cart and (9) Car.
8. Kerala	(1) Bicycle, (2) Boat, (3) Scales, (4) Two Leaves, (5) Railway Engine, (6) Sparrow, (7) Pot, (8) Camel, (9) Flaming Torch, (10) Rising Sun, (11) Coconut tree bearing fruits and (12) Swastik within a circle.
9. Madhya Pradesh	(1) Bicycle, (2) Horse and Rider, (3) Lion, (4) Rising Sun, (5) Two Leaves, (6) Cultivator winnowing grain, (7) Haldhar, (8) Railway Engine, (9) Pot, (10) Bow and Arrow, (11) Swastik within a circle, (12) Spade and Stoker and (13) Soldier with a gun.
10. Maharashtra	(1) Bicycle, (2) Horse, (3) Lion, (4) Rising Sun, (5) Scales, (6) Two Leaves, (7) Pot, (8) Sparrow, (9) Railway Engine, (10) Boat, (11) Haldhar, (12) Swastik within a circle, (13) Two Swords and a shield and (14) Camel.
11. Manipur	(1) Horse, (2) Lion, (3) Scales, (4) Two Leaves, (5) Spade, (6) Camel, and (7) Pot.
12. Meghalaya	(1) Bicycle, (2) Boat, (3) Lion, (4) Scales, (5) Spade, (6) Two Leaves, (7) Sparrow, (8) Pot, (9) Railway Engine and (10) Camel.
13. Mysore	(1) Bicycle, (2) Lion, (3) Rising Sun, (4) Two Leaves, (5) Spade, (6) Haldhar, (7) Cultivator cutting crop, (8) Cart, (9) Tractor, (10) Hand, (11) Boat, (12) Pot, (13) Railway Engine, (14) Camel, (15) Sparrow and (16) Elephant.
14. Nagaland	(1) Hornbill, (2) Tiger, (3) Mug (4) Lcg Drum and (5) Elephant.
15. Orissa	(1) Bicycle, (2) Horse, (3) Lion, (4) Two Leaves, (5) Camel, (6) Bow and Arrow, (7) Boat, (8) Railway Engine, (9) Pot and (10) Elephant.
16. Punjab	(1) Bicycle, (2) Horse and Rider, (3) Lion, (4) Two Leaves, (5) Rising Sun, (6) Haldhar, (7) Swastik within a circle, (8) Eagle about to fly, (9) Camel, (10) Railway engine, (14) Tractor, (12) Flaming Torch, (13) Soldier with a gun and (14) Elephant.
17. Rajasthan	(1) Bicycle, (2) Camel, (3) Horse, (4) Rising Sun, (5) Scales, (6) Haldhar, (7) Two Leaves, (8) Lion, (9) Boat, (10) Sparrow, (11) Umbrella, and (12) Elephant.
18. Tamil Nadu	(1) Bicycle, (2) Lion, (3) Scales, (4) Spade, (5) Two Leaves, (6) Pot (7) Sparrow, (8) Boat, (9) Camel, (10) Swastik within a circle and (11) Elephant
19. Tripura	(1) Bicycle, (2) Horse, (3) Rising Sun, (4) Scales, (5) Two Leaves, (6) Spade, (7) Pot, (8) Sparrow, (9) Swastik within a circle and (10) Lion.
20. Uttar Pradesh	(1) Bicycle, (2) Horse and Rider, (3) Lion, (4) Rising Sun, (5) Scale, (6) Swastik within a circle, (7) Railway Engine, (8) Two Leaves, (9) Pot, (10) Boat, (11) Sparrow, (12) Camel, (13) Flaming Torch, (14) Sewing Machine, (15) Tractor, (16) Bow and Arrow, (17) Hand Pump, (18) Car, (19) Cultivator cutting crop and (20) Elephant.
21. West Bengal	(1) Bicycle, (2) Rising Sun, (3) Scales, (4) Two Leaves, (5) Horse and Rider, (6) A pair of pigeons, (7) Haldhar, (8) Swastik within a circle, (9) Railway Engine, (10) Ship, (11) Flaming Torch, (12) Camel, (13) Pot, (14) Sewing Machine, (15) Tractor, (16) Hand Pump, (17) Bow and Arrow, (18) Cultivator cutting crop, (19) Radio, (20) Fish, (21) Eagle about to fly, (22) A woman carrying basket on her head, (23) Drum, (24) Soldier with a gun and (25) Elephant.
22. Andaman & Nicobar Islands	(1) Bicycle (2) Boat, (3) Scales, (4) Two Leaves and (5) Rising Sun.
23. Chandigarh	(1) Bicycle, (2) Horse, (3) Scales, (4) Two Leaves, (5) Railway Engine, (6) Tractor, (7) Boat, (8) Camel and (9) Rising Sun.

Name of State	Free symbols
24. Dadar & Nagar Haveli	(1) Bicycle, (2) Horse, (3) Scales and (4) Two Leaves.
25. Delhi	(1) Bicycle, (2) Lion, (3) Rising Sun, (4) Scales, (5) Two Leaves, (6) Horse and Rider, (7) Boat, (8) Haldhar, (9) Pot, (10) Flaming Torch, (11) Bow and Arrow, (12) Camel (13) Elephant,
26. Goa, Daman and Diu	(1) Bicycle, (2) Horse, (3) Scales, (4) Spade, (5) Two Leaves, (6) Boat, (7) Pot and (8) Camel.
27. Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands	(1) Bicycle, (2) Boat, (3) Scales, (4) Two Leaves, (5) Spade, (6) Horse, (7) Camel and (8) Elephant.
28. Pondicherry	(1) Bicycle, (2) Horse and Rider, (3) Spade, (4) Scales, (5) Two Leaves, (6) Lion, (7) Sparrow and (8) Railway Engine.

[No. 56/72-1]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1972

का० आ० 91(ख).—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आइटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में तत् भारत के राजपत्र के असाधारण अंक भाग 2 खंड 3 (ii) तारीख 27 जनवरी, 1971, में प्रकाशित अपनी अधिसूचना सं० 56/71-11 (का० आ० 479), तारीख 25 जनवरी, 1971 को अधिकांत करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा—

(क) सारणी 1 में, राष्ट्रीय दल तथा उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीक ;

(ख) सारणी 2 में, राज्यीय दल, वह राज्य अथवा वे राज्य जिनमें वे राज्यीय दल हैं तथा ऐसे राज्य अथवा राज्यों में उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीक; तथा

(ग) सारणी 3 में, हर एक राज्य के लिए मुक्त प्रतीक विनिर्दिष्ट करता है :—

सारणी 1

राष्ट्रीय दल	आरक्षित प्रतीक
1—इंडियन नेशनल कांग्रेस (संगठन)	गाय और बछड़ा
2—इंडियन नेशनल कांग्रेस (संगठन)	बर्खा कासती हुई महिला
3—स्वतंत्र पार्टी	सितारा
4—भारतीय जनसंघ	दीप
5—भारत की कम्युनिस्ट पार्टी	बाल और हसिया
6—सोशलिस्ट पार्टी	पेड़
7—भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	हथौड़ा, हसिया और सितारा

सारणी 2

राज्य का नाम	राज्यीय दल का नाम	आरक्षित प्रतीक
हरयाणा	1. विशाल हरयाणा 2. अखिल भारतीय आर्य सभा	उदीयमान सूर्य वृक्ष के भीतर स्वस्तिक
जम्मू और काश्मीर	जम्मू और काश्मीर नेशनल कान्फेस	हल
केरल	1. मुस्लिम 2. केरल कांग्रेस 3. रिबोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	सीढ़ी घोड़ा फावड़ा और बेलचा
महाराष्ट्र	1. भारत की रिपब्लिकन पार्टी 2. पीपेण्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी	हाथी गाड़ी
मणिपुर	मणीपुर पीपुल्स पार्टी	साइकिल
मेघालय	थाल पार्टी हिल लीडर्स कांग्रेस	फूल
मैसूर	जनता पक्ष	तराजू
नागालैंड	1. नागालैंड नेशनलिस्ट आरगेनाइजेशन 2. यूनाइटेड फ्रंट आफ नागालैंड	मिथुन मुर्गा
उड़ीसा	1. जन कांग्रेस 2. उत्कल कांग्रेस	ताराजू रहट तथा हल (हलचक्का)
पंजाब	1. शिरोमणि अकाली दल 2. शिरोमणि अकाली दल (गुरनामसिंह)	तराजू तीर कमान
तमिलनाडु	द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	उदीयमान सूर्य
त्रिपुरा	त्रिपुरा कांग्रेस	हल
उत्तर प्रदेश	भारतीय क्रांति दल	हलधर
पश्चिमी बंगाल	1. फार्वर्ड ब्लाक 2. रिबोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	शेर फावड़ा और बेलचा
गोवा, दमण और दीव	1. महाराष्ट्रवादी गोमान्तक 2. यूनाइटेड गोअन्स (सक्विगामुप)	शेर हाथ
पॉन्डिचेरी	1. पीपुल्स फ्रंट 2. द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	हाथी उदीयमान सूर्य

सारणी 3

राज्य का नाम	मुक्त प्रतीक
1. आंध्र प्रदेश	(1) साइकिल, (2) तराजू, (3) दो पत्तियां, (4) नाव, (5) ऊंट, (6) कलश, (7) रेल का इंजन, (8) हलधर, (9) वृत्त के भीतर स्वस्तिक, (10) गोरैया, (11) ट्रैक्टर, (12) हाथ, (13) मशाल, (14) चीता तथा (15) हाथी
2. आसाम	(1) साइकिल, (2) नाव, (3) शेर, (4) तराजू, (5) फावड़ा, (6) दो पत्तियां, (7) गोरैया, (8) कलश, (9) रेल का इंजन, (10) ऊंट तथा (11) फावड़ा और बेलचा
3. बिहार	(1) शेर, (2) उदीयमान सूर्य, (3) तराजू, (4) दो पत्तियां, (5) हलधर, (6) सीढ़ी, (7) गाड़ी, (8) नाव, (9) सिर पर टोकरी ले जाती हुई स्त्री, (10) घोड़ा और मवार, (11) वृत्त के भीतर स्वस्तिक, (12) मछली, (13) कलश, (14) तीर कमान (15) साइकिल, (16) रेल का इंजन, (17) फसल काटता हुआ किसान, (18) फावड़ा और बेलचा, (19) नगाड़ा, (20) हाथी तथा (21) बन्दूक धारी सैनिक ।
4. गुजरात	(1) साइकिल, (2) शेर, (3) उदीयमान सूर्य, (4) तराजू, (5) दो पत्तियां, (6) घोड़ा, (7) कलश, (8) गोरैया, (9) रेल का इंजन, (10) नाव तथा (11) हलधर
5. हरयाणा	(1) साइकिल, (2) हाथ, (3) घोड़ा, (4) तराजू, (5) दो पत्तियां, (6) हल, (7) शेर, (8) नाव, (9) ट्रैक्टर, (10) हलधर तथा (11) हाथी
6. हिमाचल प्रदेश	(1) साइकिल, (2) शेर, (3) उदीयमान सूर्य, (4) तराजू, (5) दो पत्तियां, (6) रेल का इंजन, (7) गोरैया, (8) नाव तथा (9) अनाज भरसाता हुआ किसान ।
7. जम्मू और काश्मीर	(1) साइकिल, (2) नाव, (3) उदीयमान सूर्य, (4) तराजू, (5) हाथ, (6) दो पत्तियां, (7) फावड़ा, (8) गाड़ी तथा (9) कार ।
8. केरल	(1) साइकिल, (2) नाव, (3) तराजू, (4) दो पत्तियां, (5) रेल का इंजन, (6) गोरैया, (7) कलश, (8) ऊंट, (9) मशाल, (10) उदीयमान सूर्य, (11) फलों सहित नारियल का पेड़ तथा (12) वृत्त के भीतर स्वस्तिक ।

1

2

9. मध्य प्रदेश

(1) साइकिल, (2) घोड़ा और सवार, (3) शेर, (4) उदीयमान सूर्य, (5) दो पत्तिया, (6) अनाज और अनाज दुआ किसान, (7) हलधर, (8) रेल का इंजन, (9) कलश, (10) तीर-कमान, (11) वृत्त के भीतर स्वस्तिक, (12) फावड़ा और बेलचा तथा (13) बन्दूक धारी सैनिक ।

10. महाराष्ट्र

(1) साइकिल, (2) घोड़ा (3) शेर, (4) उदीयमान सूर्य, (5) तराजू, (6) दो पत्तिया, (7) कलश (8) मोरैया, (9) रेल का इंजन, (10) नाव, (11) हलधर, (12) वृत्त के भीतर स्वस्तिक, (13) दो तलवार और एक ढाल तथा (14) ऊट ।

11. मणिपुर

(1) घोड़ा, (2) शेर, (3) तराजू, (4) दो पत्तिया, (5) फावड़ा, (6) ऊट तथा (7) कलश ।

12. मेघालय

(1) साइकिल, (2) नाव, (3) शेर, (4) तराजू, (5) फावड़ा, (6) दो पत्तिया, (7) मोरैया, (8) कलश, (9) रेल का इंजन तथा (10) ऊट ।

13. मैसूर

(1) साइकिल, (2) शेर, (3) उदीयमान सूर्य, (4) दो पत्तिया, (5) फावड़ा, (6) हलधर, (7) फसल काटना दुआ किसान, (8) गाड़ी, (9) ट्रैक्टर, (10) हाथी, (11) नाव, (12) कलश, (13) रेल का इंजन, (14) ऊट, (15) मोरैया तथा (16) हाथी ।

14. नागालैंड

(1) हार्नबिल, (2) चीता, (3) मग, (4) साग झूस तथा (5) हाथी ।

15. उड़ीसा

(1) साइकिल, (2) घोड़ा, (3) शेर, (4) दो पत्तिया, (5) ऊट, (6) तीर-कमान, (7) नाव, (8) रेल का इंजन, (9) कलश तथा (10) हाथी ।

16. पंजाब

(1) साइकिल, (2) घोड़ा और सवार, (3) शेर, (4) दो पत्तिया, (5) उदीयमान सूर्य, (6) हलधर, (7) वृत्त के भीतर स्वस्तिक, (8) उड़ने के लिए तैयार गरुड, (9) ऊट, (10) रेल का इंजन, (11) ट्रैक्टर (12) मशाल (13) बन्दूक धारी सैनिक तथा (14) हाथी ।

17. राजस्थान

(1) साइकिल, (2) ऊट, (3) घोड़ा, (4) उदीयमान सूर्य, (5) तराजू, (6) हलधर, (7) दो पत्तिया, (8) शेर, (9) नाव (10) मोरैया, (11) छाता तथा (12) हाथी ।

1

2

18. तमिल नाडु

(1) साइकिल, (2) शेर, (3) तराजू, (4) फावड़ा, (5) दो पत्तियां, (6) कलश, (7) गोरैया, (8) नाव, (9) ऊंट, (10) वृत्त के भीतर स्वस्तिक तथा (11) हाथी ।

19. त्रिपुरा

(1) साइकिल, (2) घोड़ा, (3) उदीयमान सूर्य, (4) तराजू, (5) दो पत्तियां, (6) फावड़ा, (7) कलश, (8) गोरैया, (9) वृत्त के भीतर स्वस्तिक तथा (10) शेर ।

20. उत्तर प्रदेश

(1) साइकिल, (2) घोड़ा और सवार, (3) शेर, (4) उदीयमान सूर्य, (5) तराजू, (6) वृत्त के भीतर स्वस्तिक, (7) रेल का इंजन, (8) दो पत्तियां, (9) कलश, (10) नाव, (11) गोरैया, (12) ऊंट, (13) मशाल, (14) सिलाई की मशीन, (15) ट्रैक्टर, (16) तीर-कमान, (17) हस्तचालित पम्प, (18) कार, (19) फसल काटता हुआ किसान तथा (20) हाथी ।

21. पश्चिमी बंगाल

(1) साइकिल, (2) उदीयमान सूर्य, (3) तराजू, (4) दो पत्तियां, (5) घोड़ा और सवार, (6) कबूतरों का एक जोड़ा, (7) हलधर, (8) वृत्त के भीतर स्वस्तिक, (9) रेल का इंजन, (10) पोत, (11) मशाल, (12) ऊंट, (13) कलश, (14) सिलाई की मशीन, (15) ट्रैक्टर, (16) हस्तचालित पम्प, (17) तीर-कमान, (18) फसल काटता हुआ किसान, (19) रेडियो, (20) मछली, (21) उड़ने के लिए तैयार गरुड, (22) मिर पर टोकरी ले जाती हुई स्त्री, (23) नगाड़ा, (24) दन्डूक धारी सैनिक तथा (25) हाथी ।

22. अण्डमान और
निकोबार द्वीप समूह

(1) साइकिल, (2) नाव, (3) तराजू, (4) दो पत्तियां तथा (5) उदीयमान सूर्य ।

23. चण्डीगढ़

(1) साइकिल, (2) घोड़ा, (3) तराजू, (4) दो पत्तियां, (5) रेल का इंजन, (6) ट्रैक्टर, (7) नाव, (8) ऊंट तथा (9) उदीयमान सूर्य ।

24. दादरा और नागर हवेली

(1) साइकिल, (2) घोड़ा, (3) तराजू तथा (4) दो पत्तियां ।

1

2

-
- | | |
|--|--|
| 25. दिल्ली | (1) साइकिल, (2) शेर, (3) उदीयमान गूर्य, (4) तराजू, (5) दो पत्तियां, (6) घोड़ा और सवार, (7) नाव, (8) हलधर, (9) कलश, (10) मशाल, (11) तीर-कमान, (12) ऊंट तथा (13) हाथी। |
| 26. गोवा, दमण और दीव | (1) साइकिल, (2) घोड़ा, (3) तराजू, (4) फावड़ा, (5) दो पत्तियां, (6) नाव, (7) कलश, तथा (8) ऊंट। |
| 27. लक्कादीव, मिनिकोय और अनोनदीवी द्वीप समूह | (1) साइकिल, (2) नाव, (3) तराजू, (4) दो पत्तियां, (5) फावड़ा, (6) घोड़ा, (7) ऊंट तथा (8) हाथी। |
| 28. पांडिचेरी | (1) साइकिल, (2) घोड़ा और सवार, (3) फावड़ा, (4) तराजू, (5) दो पत्तियां, (6) शेर, (7) गोरैया तथा, (8) रेल का इंजन। |
-

[नं० 56/72-I.]

प्रादेश में,

के० एम० राम गोपालन, सचिव।

